

आई.सी.ई

लीड जेनरेशन गाइड

संभावित लीड की पहचान कैसे करें?



दिलचस्पी

ग्राहक कोई खास
लोन चाहता हो



संपर्क योग्य

ग्राहक संपर्क योग्य/पहुंच
योग्य होना चाहिए



पात्र

ग्राहक को पात्रता की शर्त
को पूरा करना चाहिए



AXIS BANK



B2C - KCC / ODCON / किसान समर्थ



लक्षित ग्राहक

व्यक्तिगत तथा तरक्की पसंद किसान




पेश की गई सुविधाएं-

कैश क्रेडिट 5 वर्ष तक
लोन की अवधि 7 वर्ष तक



उम्र मापदंड

18 वर्ष-75 वर्ष
(अगर >60 वर्ष तो सह-उधारकर्ता आवश्यक)



कम से कम धारित जमीन

केसीसी-1 एकड़ - जॉयन होल्डिंग
- 5 संयुक्त धारक तक
ओडीकोन - 0.5 एकड़
किसान समर्थ - 5 एकड़ (3-5 एकड़, मंजूरी के अधीन)



लोन की राशि

केसीसी - ₹ 25,000 से 2.5 करोड़
ओडीकोन - ₹ 1 लाख से ₹ 5 करोड़
किसान समर्थ - ₹ 1 लाख से ₹ 5 करोड़

B2B रीटेल तथा MSME

AGPRO पावर



लक्षित ग्राहक

फूड तथा एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए



संयोजन

व्यक्तिगत (मान्य लाइसेन्स के अधीन)/ प्रॉपरायटरशिप/ पार्टनरशिप/ प्रा.लि. कं./ लिमिटेड कं./ एलएलपी



उम्र मापदंड

21 वर्ष - 65 वर्ष



बिजनेस का अनुभव/निरंतरता

न्यूनतम 3 वर्ष तथा पिछले 2 वर्षों के लिए कैश जमा.
एग्रो लाइट के लिए : 1 वर्ष



लोन की राशि

एग्रो पावर : न्यूनतम ₹ 10.01 लाख से अधिकतम ₹ 10 करोड़
एग्रो लाइट : न्यूनतम ₹ 10.01 लाख से अधिकतम ₹ 1 करोड़



स्वीकार्य कोलेटरल्स

रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी/फैक्ट्री/गोडाउन, एनए खुला प्लॉट, ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी

किसान मित्र (केएम)



लक्षित ग्राहक

कृषि सेवा प्रदानकर्ताओं, कृषि वैल्यू चेन पार्टनर्स के लिए



संयोजन

व्यक्तिगत (मान्य लाइसेन्स के अधीन)/प्रॉपरायटरशिप/ पार्टनरशिप/प्रा.लि. कं./लिमिटेड कं./एलएलपी



उम्र मापदंड

21 वर्ष - 65 वर्ष



बिजनेस का अनुभव/निरंतरता

न्यूनतम 3 वर्ष तथा पिछले 2 वर्षों के लिए कैश जमा.
किसान मित्र लाइट के लिए : 1 वर्ष



लोन की राशि

किसान मित्र : न्यूनतम ₹ 10.01 लाख से अधिकतम ₹ 10 करोड़
किसान मित्र लाइट : न्यूनतम ₹ 10.01 लाख से अधिकतम ₹ 1 करोड़



स्वीकार्य कोलेटरल्स

रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी/ फैक्ट्री/गोडाउन, एनए खुला प्लॉट, ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी

MSME समृद्धि



लक्षित ग्राहक

स्व-रोजगार युक्त नॉन-प्रोफेशनल्स-निर्माता, व्यापारी तथा सर्विस प्रदानकर्ता, उनके अलावा तथा अतिरिक्त जिन्हें एगप्रो व किसान मित्र में शामिल किया जा चुका है. स्व-रोजगार युक्त प्रोफेशनल्स-डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, सीए आदि



संयोजन

व्यक्तिगत (मान्य लाइसेन्स के अधीन) / प्रॉपरायटरशिप / पार्टनरशिप / प्रा.लि. कं. / लिमिटेड कं. / एलएलपी



बिजनेस का अनुभव/निरंतरता

न्यूनतम 3 वर्ष तथा पिछले 2 वर्षों के लिए कैश जमा.
MSME लाइट के लिए : 1 वर्ष



लोन की राशि

MSME : न्यूनतम ₹ 10.01 लाख से अधिकतम ₹ 10 करोड़
MSME लाइट : न्यूनतम ₹ 10.01 लाख से अधिकतम ₹ 1 करोड़



स्वीकार्य कोलेटरल्स

रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी / फैक्ट्री / गोडाउन, एनए खुला प्लॉट, ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी



उम्र मापदंड

21 वर्ष - 65 वर्ष

क्विक जीएसटी मैक्स



लक्षित ग्राहक

फूड एंड एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स, कृषि सेवा प्रदानकर्ता, एग्री वैल्यू चेन पार्टनर्स, MSME गैर-कृषि ग्राहक



संयोजन

व्यक्तिगत (मान्य लाइसेन्स के अधीन) / प्रॉपरायटरशिप / पार्टनरशिप / प्रा.लि. कं. / लिमिटेड कं. / एलएलपी



बिजनेस का अनुभव/निरंतरता

न्यूनतम 3 वर्ष तथा पिछले 2 वर्षों के लिए कैश जमा



लोन की राशि

न्यूनतम ₹ 10.01 लाख से अधिकतम ₹ 2 करोड़



स्वीकार्य कोलेटरल्स

रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी/ फैक्ट्री/ गोडाउन, एनए खुला प्लॉट, ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी



उम्र मापदंड

21 वर्ष - 65 वर्ष

सिक्योर्ड मियादी लोन (STL)



लक्षित ग्राहक

फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, कृषि सेवा प्रदानकर्ता, एग्री वैल्यू चेन पार्टनर्स, MSME गैर-कृषि ग्राहक



लोन का प्रयोजन

सामान्य व्यवसाय तथा कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सावधि लोन तथा ड्रॉपलाइन ओवर ड्राफ्ट



संयोजन

व्यक्तिगत (मान्य लाइसेन्स के अधीन)/ प्रॉपरायटरशिप/ पार्टनरशिप/ प्रा.लि. कं./ लिमिटेड कं./ एलएलपी



बिजनेस का अनुभव/निरंतरता

न्यूनतम 3 वर्ष तथा पिछले 2 वर्षों के लिए कैश जमा



लोन की राशि

न्यूनतम ₹ 10.01 लाख से अधिकतम ₹ 5 करोड़



स्वीकार्य कोलेटरल्स

रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी/ फैक्ट्री/ गोडाउन, एनए खुला प्लॉट, ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी



मापदंड

उम्र 21 वर्ष- 65 वर्ष
अवधि 15 वर्ष तक

गोल्ड लोन की पात्रता



लक्षित ग्राहक

व्यक्तिगत
(केवल भारतीय
निवासी)



उम्र

18 - 75
वर्ष



भौगोलिक सीमाएं

शाखा से 50 किमी के
अंदर निवास/कृषि
गतिविधि का स्थान



स्वीकार्य सोने का कैरेट

18K व उससे
अधिक

ट्रैक्टर लोन की पात्रता



लक्षित ग्राहक

- अपनी जरूरतों के लिए खेती: व्यक्तिगत/प्रापराइटरशिप फर्म्स
- कमर्शियल इस्तेमाल : व्यक्तिगत / प्रापराइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां / पब्लिक लिमिटेड कंपनियां



उम्र

18 - 65 वर्ष
(लोन की समाप्ति
के समय)

कार लोन पात्रता



लक्षित ग्राहक

- वेतनभोगी कम से कम 1 वर्ष के अनुभव के साथ
- स्व-रोजगार वाले व्यक्ति, समान व्यवसाय में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के साथ



उम्र

न्यूनतम 21 वें
70 वर्ष



कम से कम अपेक्षित आमदनी*

- वेतनभोगी - ₹ 20,000 प्रति माह
- स्व-रोजगार - ₹ 2 लाख प्रति वर्ष

टू व्हीलर लोन की पात्रता



लक्षित ग्राहक

- वेतनभोगी कम से कम 1 वर्ष के अनुभव के साथ
- स्व-रोजगार वाले व्यक्ति, समान व्यवसाय में कम से कम 1 वर्ष के अनुभव के साथ



उम्र

21 - 65 वर्ष



कम से कम अपेक्षित आमदनी*

- वेतनभोगी ग्राहक : ₹ 14,000 प्रति माह
- स्व-रोजगार वाले ग्राहक : ₹ 2.5 लाख प्रति वर्ष

*केवल वनीला (आमदनी प्रमाण) स्कीम के ज़रिए किए गए मामलों के लिए लागू

कमर्शियल वाहन तथा कमर्शियल उपकरण लोन की पात्रता




लक्षित ग्राहक

फ़ाइट ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, मार्केट लोड ऑपरेटर्स, माइनिंग ऑपरेटर्स, बिल्डर्स तथा डेवलपर्स, स्कूल




उधारकर्ता का संयोजन

व्यक्तिगत प्रॉपराइटर्स, पार्टनरशिप फ़र्म्स तथा एलएलपी, एचयूएफ, पब्लिक व प्राइवेट लि. कं. ट्रस्ट्स तथा सोसायटियां, शैक्षणिक संस्थाएं, एनपीओज़, एसोशिएशन ऑफ़ पर्सन्स



वाहन के प्रकार

ट्रक, बसों, ट्रेलर्स, टिपर्स, एक्सकेवेटर्स, क्रेन्स, बैकहो लोडर्स



बिजनेस की स्थिरता

नए वाहनों के लिए कम से कम 2 वर्ष का बिजनेस अनुभव या कम से कम 2 एकड़ कृषि भूमि



ये पात्र नहीं

वेतनभोगी कर्मचारी, अनिवासी भारतीय, अनरजिस्टर्ड फ़र्म और ट्रस्ट्स

होम लोन की पात्रता



लक्षित ग्राहक :

भारत का निवासी:

वेतनभोगी

- स्व-रोजगार युक्त-प्रोफेशनल
- स्व-रोजगार युक्त- नॉन-प्रोफेशनल



अनिवासी भारतीय

वेतनभोगी और स्व-रोजगार युक्त दोनों



उम्र

न्यूनतम : 21 वर्ष

अधिकतम : 65 वर्ष या रिटायरमेंट की उम्र, जो भी पहले हो (लोन की परिपक्वता के समय)



न्यूनतम अपेक्षित आमदनी

वेतनभोगी ग्राहक : ₹ 15,000 प्रति माह

स्व-रोजगार युक्त ग्राहक : ₹ 1.8 लाख प्रति वर्ष



लोन की राशि

लोन की न्यूनतम राशि : ₹ 3 लाख

लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी की पात्रता



लक्षित ग्राहक

कोई ग्राहक जो वेतन पाता हो या बिजनेस से आमदनी कमाता हो या उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो या निजी या बिजनेस के इस्तेमाल के लिए फंड्स पाना चाहता हो



उम्र

21 - 65 वर्ष (लोन की समाप्ति के समय)



लोन की राशि - एलएपी न्यूनतम नॉन

एमएसएमई के लिए ₹ 5 लाख और

एमएसएमई के लिए ₹ 10 लाख

आमदनी, एलआरडी के लिए अधिकतम ₹ 10

करोड़ तथा बैंकिंग के लिए ₹ 8 करोड़ आहर

अन्य सरोगेट्स के लिए ₹ 5 करोड़



न्यूनतम अपेक्षित आमदनी

• वेतनभोगी ग्राहक : ₹ 10,000 प्रति माह

• स्व-रोजगार युक्त ग्राहक : ₹ 1.8 लाख प्रति वर्ष

आशा होम लोन

लक्षित ग्राहक



कोई ग्राहक जो वेतन पाता है या बिजनेस से आमदनी कमाता है तथा रिहायशी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो/प्लॉट खरीदकर उस पर घर बनवाना चाहता हो/पहले से मौजूद प्लॉट पर घर बनवाना चाहता हो /बैलेन्स ट्रांसफर करना चाहता हो

उम्र



21 - 65 वर्ष (लोन की समाप्ति के समय)

आमदनी संबंधी अपेक्षा



वेतनभोगी : ₹ 8,000 प्रति माह
(कैश सेलरी स्वीकार्य)
एसईपी तथा एसईएनपी : ₹ 1.2 लाख प्रति वर्ष



लोन की राशि - न्यूनतम लोन राशि : ₹ 1 लाख | अधिकतम लोन राशि : ₹ 50 लाख
(अधिकतम लोन राशि : आशा प्रीमियम लोन्स के लिए ₹ 1 करोड़)

आशा लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी

लक्षित ग्राहक



आशा एलएपी एक माइक्रो-लैप है जो कि किफ़ायती हाउसिंग सेगमेंट की अपेक्षा को पूरा करता है. कोई ग्राहक जिसके पास बैंक सेलरी/कैश सेलरी या बिजनेस आमदनी है तथा प्रॉपर्टी का मालिक है या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या निजी या बिजनेस के इस्तेमाल के लिए फंड्स चाहता है.

उम्र



21 - 65 वर्ष (लोन की समाप्ति के समय)

आमदनी संबंधी अपेक्षा



वेतनभोगी : ₹ 10,000 प्रति माह
(कैश सेलरी स्वीकार्य)
एसईपी तथा एसईएनपी : ₹ 1.2 लाख प्रति वर्ष



लोन की राशि

न्यूनतम लोन राशि : ₹ 10 लाख | सम्मिलित अधिकतम लोन राशि ₹ 100 लाख है.

SBB - कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट पात्रता

उम्र




21 - 70 वर्ष



टर्नओवर

₹ 30 लाख से
₹ 30 करोड़



बिजनेस का कम से कम अनुभव

3 वर्ष



कम से कम अपेक्षित आमदनी

गैर-व्यक्तिगत - ₹ 3 लाख का पॉजिटिव नेट प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट
प्रॉपरायटरशिप/व्यक्तिगत - पिछले 2 वर्षों में ₹ 2.5 लाख की आईटीआर आमदनी

SBB - सिक्वोर्ड टर्म लोन पात्रता




उम्र

21 - 70 वर्ष



टर्नओवर

₹ 30 लाख से
₹ 30 करोड़



कम से कम बिजनेस अनुभव

3 वर्ष



कम से कम अपेक्षित आमदनी

व्यक्तियों के लिए - नवीनतम वर्ष की आईटीआर आमदनी ₹ 300000 तथा पूर्व वर्ष की ₹ 250000 है.
प्रॉपराइटरशिप कंसर्न - पिछले 2 वर्षों की आईटीआर आमदनी ₹ 250,000
पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी/कंपनी - पीएटी पॉजिटिव होना चाहिए तथा पिछले 2 वर्षों में टैक्स अदा किया होना चाहिए.
पिछले 2 वर्षों के लिए कैश मुनाफा ₹ 300,000



स्वामित्व

ऑफिस / निवास स्थान

SBB - बिजनेस लोन




उम्र

21-65 वर्ष (डॉक्टर्स के लिए 24-65 वर्ष)



टर्नओवर

₹ 30 लाख से ₹ 1 करोड़



बिजनेस का अनुभव

न्यूनतम 3 वर्ष (डॉक्टर के लिए 2 वर्ष)



स्वामित्व

ऑफिस/निवास स्थान



न्यूनतम आमदनी

सभी प्रोग्राम्स के अंतर्गत न्यूनतम ₹ 3 लाख.

डिस्क्लेमर :

ETB - बैंक के मौजूदा ग्राहक

NTB - बैंक के नया ग्राहक

पर्सनल लोन की पात्रता



लक्षित ग्राहक

वेतनभोगी व्यक्ति



उम्र

21 - 60 वर्ष
(लोन की समाप्ति के समय)



कार्य अनुभव

कम से कम 12 महीने



कम से कम अपेक्षित आमदनी*

- सीएसजी - >35K, नॉन सीएसजी - >40K • आमदनी मापदंड (एनटीबी) - >50K • ब्यूरो स्कोर - >740
- कंपनी कैटेगिरी (सीएसजी) - एससीएटीए/सीएटीजीए/सीएटीजीबी/पीओएल/जीओवीटी/डीईएफ
- कंपनी कैटेगिरी (नॉन सीएसजी तथा एनटीबी) - एससीएटीए/सीएटीजीए/सीएटीजीबी/केन्द्र सरकार

*कृपया नोट करें :

CSG - (कॉर्पोरेट सेलरी अकाउंट धारक) ऐक्सिस अकाउंट में कम से कम 2 सेलरी क्रेडिट

ETB नॉन-CSG - सेविंग्स अकाउंट कम से कम 2 महीने के विटेज के साथ

ETB - पहले से बैंक के साथ

NTB - बैंक के लिए नया

एज्युकेशन लोन



लक्षित ग्राहक

विद्यार्थी के लिए 25 से 35 वर्ष
माता-पिता के लिए 50 से 58 वर्ष



ग्राहक वर्ग

वेतनभोगी/स्व-रोजगार युक्त



आमदनी मापदंड

ब्यूरो स्कोर - वेतनभोगी (एस) - 740 व स्व रोजगार (एसई) - 740

आमदनी मापदंड - सीएसजी/एक्सिस सेलरी अकाउंट - (एस) 40 हजार प्रति माह तथा (एसई) 4.8 लाख

वार्षिक आईटीआर आमदनी मापदंड (नॉन सीएसजी) - 50 हजार प्रति माह, (एसई) - 50 हजार प्रति माह

एबीबी - (एस) - 1.5 गुना, (एसई) - 1.5 गुना



उम्र

आवेदक : कोई उम्र सीमा नहीं

सह-आवेदक : लोन स्थगन अवधि के अंत में 60 तक

धन्यवाद